



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 पौष 1935 (श0)
(सं0 पटना 67) पटना, बुधवार, 8 जनवरी 2014

गन्ना उद्योग विभाग

कार्यालय आदेश
25 नवम्बर 2013

सं0 बि.ऊ.-02-05/2011-2282—पेराई वर्ष 2013-14 के लिए मेसर्स बजाज हिन्दुस्थान लिमिटेड, प्रतापपुर, जिला-देवरिया (उ० प्र०) से पथ क्रय केन्द्र आवंटन से संबंधित प्राप्त प्रस्ताव पर विभिन्न चीनी मिलों के प्रतिनिधियों एवं विभागीय पदाधिकारियों के समक्ष दिनांक 25.10.2013 को सुनवाई की गई।

बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अधिनियम 1981 की धारा-29 के अंतर्गत पथ केन्द्रों की स्वीकृति से संबंधित मेसर्स बजाज हिन्दुस्थान लिमिटेड, प्रतापपुर द्वारा अपने परम्परागत एवं अपराम्परागत आरक्षित क्षेत्र में कुल 12 क्रय केन्द्रों की स्वीकृति का प्रस्ताव समर्पित किया गया है। प्रस्ताव से सभी पक्षों को अवगत कराया गया।

प्राप्त प्रस्ताव पर उपस्थित सभी पक्षों एवं विभागीय पदाधिकारियों के मंतव्य को भी सुना गया। इस मिल द्वारा उनके परम्परागत क्षेत्र में प्रस्तावित क्रय केन्द्रों पर किसी अन्य चीनी मिल द्वारा कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की गई।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में स्थानीय ईख पदाधिकारी के मन्तव्य एवं गन्ना किसानों की सुविधा के मद्देनजर तथा ईख अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत पेराई वर्ष 2013-14 के लिए मेसर्स बजाज हिन्दुस्थान लिमिटेड, प्रतापपुर, जिला-देवरिया (उ० प्र०) को गन्ना उठाव हेतु संलग्न सूची के पथ क्रय केन्द्रों पर अंकित मात्रा में गन्ना खरीद की स्वीकृति दी जाती है।

2. आवंटित सभी पथ क्रय केन्द्रों का परिचालन चीनी मिल चलने के साथ ही आरम्भ किया जाए। बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अधिनियम, 1981 की धारा-26 एवं 27 के साथ बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) नियमावली, 1978 की धारा-22,23,24,27 एवं 30 का सम्यक रूप से पालन करना सुनिश्चित किया जाए। अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधानों का पालन नहीं करने की स्थिति में ईख अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

3. संबंधित ईख पदाधिकारी दैनिक ईख खरीद की मात्रा एवं स्वीकृत नये पथ क्रय केन्द्रों का स्थल चयन करेंगे। यथासंभव सार्वजनिक अथवा गैर विवादित स्थल पर क्रय केन्द्र स्थापित करेंगे। स्थल चयन के क्रम में स्थानीय ईख पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि क्रय केन्द्र की स्थापना स्वीकृत राजस्व थाना के क्षेत्रान्तर्गत ही स्थापित हो। ईख पदाधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि चीनी मिलों के माध्यम से उनके आरक्षित क्षेत्र सहित नये गठित क्षेत्र में भी मिल चलने के पूर्व ईख आच्छादन के सर्वेक्षण का कार्य नई सर्वेक्षण नीति विभागीय पत्रांक 800 दिनांक 23.04.2013 के अनुसार सम्पन्न हो एवं उसके आधार पर समानुपातिक रूप में पर्ची वितरण कैलेण्डर तैयार कर उसके अनुरूप हो। पर्चियों के आवंटन/वितरण में किसी भी प्रकार के विचौलियों का समावेश नहीं हो। मिलों द्वारा अपने कर्मचारियों के

माध्यम से किसानों को समय पर पर्ची (requisition slip) उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जाए तथा उनसे पावती को को संधारित रखा जाए।

4. G.P.S के माध्यम से सम्पादित सर्वेक्षण के बाद नई सट्टानीति के अनुसार कैलेण्ड्रींग, पर्ची वितरण की व्यवस्था मिल प्रबंधन द्वारा किया जायेगा।

5. पथ क्रय केंद्रों की स्थापना एवं परिचालन हेतु विभागीय पत्रांक-2108 दिनांक 24.10.2013 के माध्यम से घोषित नई नीति के अनुसार ही पथ क्रय केंद्र स्थापित एवं परिचालित किये जा सकेंगे। संबंधित ईख पदाधिकारी इसका शक्ति से अनुपालन सुनिश्चित करायेगें।

6. विभागीय आदेश संख्या 1283 दिनांक 05.07.2013 का अनुपालन कर सभी तौल सेतु न्यूनतम 5 टन के कम्प्यूटराईज्ड एवं लोड सेल के साथ स्थापित होगा। स्थानीय ईख पदाधिकारी इसका अनुपालन सुनिश्चित करायेगें। इसमें किसी भी परिस्थिति में विचलन नहीं होगा।

7. चीनी मिल क्रय केंद्र के परिचालन के पूर्व क्रय केंद्रों का पदस्थापित किये जाने वाले अपने मिल कर्मियों की सूची विभाग को उपलब्ध करायेगें तथा ऐसी व्यवस्था की जायेगी कि माहवार तौल लिपिकों का स्थानांतरण किया जाय। इसकी भी सूचना समय-समय पर विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट,
ईखायुक्त।

पेराई वर्ष 2013-14 के लिए बजाज हिन्दुस्थान लि०, प्रतापपुर (देवरिया, उ० प्र०)
को आवंटित पथ क्रय केंद्रों की सूची

जिला का नाम	प्रखण्ड का नाम	क्रम संख्या	प्रस्तावित क्रय केंद्र का नाम	राजस्व थाना नं.	GPS द्वारा किये गये सर्वे के आधार पर कुल रकवा(एकड़ में)	सट्टानीति के आधार पर आवंटित गन्ने की मात्रा (लाख क्वी. में)
		01.	मिल गेट	—	3575.90	5.01
सिवान	दरौली	02.	बौना	178	373.07	0.52
	आन्दर	03.	असांव	250	162.82	0.23
	गुठनी	04.	सेलउर	76 / 123	141.93	0.20
	सिवान	05.	सरावे	192	302.06	0.42
गोपालगंज	हथुआ	06.	कुसौंधी	955	227.16	0.32
	हथुआ	07.	पचफेड़ा	958	428.54	0.60
	भोरे	08.	करमासी	290	403.34	0.56
	भोरे	09.	लालाछापर	325	175.68	0.25
	भोरे	10.	लामिचौर	334	237.67	0.33
	फुलवरिया	11.	कोयलादेवा	930	184.05	0.26
	विजईपुर	12.	मुसहरी	106	196.70	0.28
			योग :-		6408.92	8.97

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 67-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>